



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

658]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2012/पौष 3, 1934

1. 658]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2012/PAUSA 3, 1934

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 925(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ इंजीनियरी र प्रौद्योगिकी महाविद्यालय चंडीगढ़, प्रधानाचार्य, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, सहायक आचार्य प्रयुक्त विज्ञान और ज्येष्ठ तकालयाध्यक्ष के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चंडीगढ़ इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, चंडीगढ़, गसन, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, प्रयुक्त विज्ञान के सहायक आचार्य और ज्येष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 12 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम इन नियमों की संलग्न अनुची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

भारत

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद है अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिचोषा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की प्रणालि: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा एवं विभिन्न पद्धति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में किन ग्रेडों से पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना चाहिए	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाना अपेक्षित है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. प्रधानाचार्य	1* (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह के राजपत्रित	10,000/- रुपए के शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु.+	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी में बीई/बी.टेक. और एमई/एम.टेक. बीई/बीटेक एमई/एमटेक और	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा	लागू नहीं होता	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह के विभागीय प्रोन्नति समिति जो	प्रत्यक्ष भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग

किया जा सकता है	3000 रु. प्रतिमास का विशेष भत्ता	निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक की छुट्टी। टिप्पण: आयु तय की सीमा करने तारीख भारत में अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिब्बोजन,	पीएच.डी. के समतुल्य (ii) अध्यापन अथवा अनुसंधान अथवा उद्योग में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आचार्य स्तर पर होना चाहिए। अथवा शिक्षण अथवा शोध अथवा उद्योग-जगत में तेरह वर्ष का अनुभव। शोध अनुभव के मामले में, चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझे गए अच्छे शैक्षिक अभिलेख और पुस्तकें अथवा शोध कारज प्रकाशन/बौद्धिक संपदा अधिकार/पेटेंट अभिलेख आवश्यक होंगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है तो यह चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित	अध्ययन अवकाश अथवा अन्य हातातों में एक वर्ष अथवा उससे अधिक के अवकाश से छुट्टी मिलेगी। मूल केंद्र अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदाधिकारी केन्द्र सरकार के अधिकारियों जो कालम 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. गृह सचिव, तत्कालीन शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन-सदस्य 2. सचिव, तत्कालीन शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन-सदस्य 3. संयुक्त सचिव, तत्कालीन शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन-सदस्य	से आवश्यक परामर्श।
-----------------	----------------------------------	--	--	---	--	--------------------

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहौल और स्मिति, जिला और पंगी उप डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।	समझी गए डिवाइजिंग अथवा डिजाइनिंग, डवलपिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों अथवा शोध दस्तावेज प्रकाशन/बौद्धिक संपदा अधिकार/पेटिंग में सक्रिय भागीदारी अभिलेख के साथ आचार्य स्तर के समकक्ष संबंधीय स्तर पर होगा।	शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)
--	---	--

क्षेत्र में हों।	टिप्पण 2. पीएच.डी. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो।	टिप्पण 3. डिप्लोमा संस्थानों पर अनुभव को समुचित स्तर के डिग्री स्तर के संस्थानों के अनुभव के बराबर समझा जाएगा और जो लागू हो उपरोक्तानुसार अर्हताएं आजपाक होंगी।	टिप्पण 4. यदि वर्ग अथवा डिवीजन प्रदान नहीं की जाती है, तो न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी अथवा डिवीजन के समकक्ष माना जाएगा। यदि एक ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई जाती है तो निम्नानुसार संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जाएगा:- ग्रेड समकक्ष प्वाइंट प्रतिशत
------------------	--	---	--

[illegible]

2	आचार्य	4* (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	10,000/- रुपए के शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 37400-67000 रुपए	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) आयु तय सीमा करने की तारीख भारत में अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	होने की संभावना नहीं है। वांछनीय: पीएचडी के पश्चात प्रकाशन तथा पीएचडी के छात्रों को गाइड करना अत्यधिक वांछनीय है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। प्रति-प्रक्रिया अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य हालातों में एक वर्ष अथवा उससे अधिक के अवकाश से हुई रिक्तियां मूल केंद्र अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पदाधिकारी	सीधी भर्ती नहीं होता।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि लिए) 1. गृह सचिव, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन-चंडीगढ़, -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ -सदस्य 3. प्रधानाचार्य, चंडीगढ़ इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय चंडीगढ़ -सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श आवश्यक है।
---	--------	---	--	---	----------------	---	---	-----------------	----------------------------	---	-----------------------	--	--

मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहौल और स्पीति जिला और पंगी उप डिवीजन, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।	में न्यूनतम तरह वर्ष का अनुभव। शोध अनुभव के मामले में, चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा ठीक समझे गए अच्छे शैक्षिक अभिलेख और पुस्तकें अथवा शोध पत्र प्रकाशन/बौद्धिक संपदा अधिकार/पेटेंट अभिलेख आवश्यक होंगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है तो वह सह आचार्य के स्तर के समतुल्य प्रबंधक के स्तर पर होगा जिसमें चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित माना गया आविष्कार, डिजाइन, आयोजना, कार्यान्वयन, विश्लेषण, गुणवत्ता, नियंत्रण, नवाचार, पशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/अनुसंधान दस्तावेजों के प्रकाशन/ आईपीआर/पेटेंट आदि में सक्रिय भागीदारी का अभिलेख होना चाहिए।	केन्द्रीय सरकार के अधिकारि यों जो 7 स्तंभ में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, से प्रतिनियु क्त के आधार पर भरी जा सकती हैं। (प्रतिनियु क्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा
--	--	--

टिप्पण 1: पीएच.डी. की समतुल्यता पांच अंतर्राष्ट्रीय जरनल पेपर्स के प्रकाशन पर आधारित है। प्रत्येक जरनल का संचयी प्रभाव सूचकांक 2.0 से कम नहीं होगा जिसमें पदधारी मुख्य लेखक होगा तथा सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र में होने चाहिए।

टिप्पण 2: पीएच.डी. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होगी।

टिप्पण 3: डिप्लोमा संस्थानों पर अनुभव को समुचित स्तर के डिग्री स्तर के संस्थानों के अनुभव के बराबर समझा जाएगा और जो लागू हो उपरोक्तानुसार अर्हताएं आजापक होंगी।

टिप्पण 4: यदि श्रेणी अथवा डिबीजन प्रदान

[illegible]

3. सह आचार्य	7* (2012) कार्य भार के आधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	र 9000/- के शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित 37400 रु.- 67000 रु.	लागू नहीं होता	पैतालीस वर्ष से अधिक नहीं (कैबिडीय संस्कार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को पांच वर्ष तक शिथिलनीय)। विषय: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। (और उन अभ्यर्थियों के अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है जो अपने,	अनिवार्य : (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विरविद्यालय/संस्था से बी.ई/बी.टेक. में अथवा एम.ई/एम.टेक. में प्रथम श्रेणी अथवा समतुल्य में इंजीनियरी की उपयुक्त शाखा में (सिविल इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरी/ इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स संचार इंजीनियरी, मैकेनिकल इंजीनियरी, इंजीनियरी में स्नातक/प्रौद्योगिकी में तथा मैकेनिकल में स्नातक/प्रौद्योगिकी में मास्टर। (ii) अध्यापन/अनुसंधान/ उद्योग में पांच वर्ष का अनुभव जिसमें से दो वर्ष का पीएच.डी. के बाद का अनुभव मौखिक है। टिप्पण : पीएच.डी. के लिए समतुल्यता पांच	लागू नहीं	सौधी भती के लिए दो वर्ष	सौधी भती द्वारा वर्षों के एक वर्ष और इससे अधिक की अवधि के लिए प्रति- निधित्व अधी सही बीमारी अधी अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थिति यों के कारण जाने से दुई रिक्तियों को प्रतिनिधु नित के आधार पर भूल	सौधी भती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आपस क है।	श्रेणी का विभागीय वर्गीकरण समिति (एनई कारने हेतु) 1. गुरु सचिव, लोकनीति विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़- अध्याप 2. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़- सदस्य 3. प्रधान चार्य, चंडीगढ़ इंजीनियरी संघ प्रौद्योगिकी की कालेज,
-----------------	--	--	--	----------------------	---	--	--------------	--	---	---	---

मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लॉहौल तथा स्पीति जिले और चम्ब जिले के पंगी उप प्रभाग, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप से संबंधित है।	अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल-पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, प्रत्येक जर्नल का संचयी प्रभाव सूचकांक 2.0 से कम नहीं होगा। जिसमें पदधारी मुख्य लेखक होगा और पांच प्रकाशन लेखक के विशिष्टीकरण क्षेत्र में शामिल होंगे। टिप्पण 2: पीएच.डी. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की गई होगी। टिप्पण 3. डिप्लोमा संस्थानों पर अनुभव को समुचित स्तर के डिग्री स्तर के संस्थानों के अनुभव के बराबर समझा जाएगा और जो लागू हो उपरोक्तानुसार अर्हताएं आजापक होगी। टिप्पण 4 : यदि श्रेणी या डिवीजन प्रदान नहीं की जाती है तो कुल मिलाकर न्यूनतम	संवर्ग/विभा ग में नियमित आधार पर सहश पद और कॉलम 7 में दी गई निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले केन्द्र सरकार के अधिकारि यों द्वारा भरा जा सकता है। (प्रतिनियु क्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त	चंडीगढ़- सदस्य
---	---	---	-------------------

[illegible]

[illegible]

4.	सहायक आचार्य	16* (2012) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	6000 रु. के शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित 15600 रु. 39100 रु.	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को पांच वर्ष तक शिथिलनीय) विष्पण: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों हैं आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होनी। (और उन अभ्यर्थियों के लिए अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है जो	प्रकाशन और मार्गदर्शी पीएच.डी. के छात्र अत्यधिक वांछनीय है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। एक वर्ष और उससे अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा परिस्थितियों के कारण जाने से हुई रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर	लागू नहीं होता।	श्रेणी क विभागीय प्रोत्पत्ति समिति के (पुष्टि के लिए) 1. गृह सचिव, तत्कालीन शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़-2. संस्कृत सचिव, तत्कालीन शिक्षा, चंडीगढ़-3. प्रभानाथर्क, चंडीगढ़ इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय चंडीगढ़-सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
----	--------------	---	--	---	-----------------	---	---	-----------------	----------------------------	--	-----------------	---	---

असम, मेघालय, अरुणाचल, प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लॉहौल तथा स्पीति जिले और चम्बा जिले के पंगी उप प्रभाग, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप से संबंधित है।	को अपनाया जाता है कुल ग्रेड बिन्दु औसत को निम्न प्रकार से समतुल्य अंकों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ग्रेड समतुल्य अंक प्रतिशतता 6.25 55% 6.75 60% 7.25 65% 7.75 70% 8.25 75% टिप्पण-1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार लिखित में कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: विषय/शाखा की सटीक अपेक्षाओं को प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया के समय दर्शाया जाएगा।	सदृश पद और स्तंभ 7 में दी गई निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा भरा जा सकता है। (प्रतिनियु क्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।
---	---	--

5. अनु-प्रयुक्त विज्ञान में सहायक आचार्य	03* (2012) कार्य के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 6000 रु. 15600-39100/- रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों अथवा निदेशों अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य: (i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (या जहां ग्रेडिंग पद्धति अपनाई जाती हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथा परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख या प्रत्याबित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री। (ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसी तरह की प्रत्यायित परीक्षा जैसे राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा यदि पदधारी द्वारा प्रति-नियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन या छुट्टी या अन्य किसी भी परिस्थिति की वजह से एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए पद रिक्त किया जाता है तो इसे स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए	लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण हेतु)	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।
									1. गृह सचिव, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़-अध्यक्ष			
									2. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ सदस्य			
									3. प्रधानाचार्य, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग एवं			

					<p>प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर का राज्य लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश राज्य का एवं लाहौल स्पीति जिलों तथा चम्पा लिसे के पोंगी एवं उपमंडल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई अंतिम तारीख नहीं।</p>	<p>(स्टैट)सिम्बयोसिस प्रवेश परीक्षा (सैट) अवश्य उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। (iii) उपर्युक्त उप खण्ड (i) और (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अभ्यर्थी या जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी) उपाधि देने के लिए न्यूनतम मानक और पद्धति) विनियम, 2009 के अनुसार, पीएचडी डिग्री है या पीएचडी उपाधि की गई हो, को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/प्राध्यापक के लिए राज्य पात्रता परीक्षा हेतु सहायक आचार्य या समतुल्य पदों पर नियुक्ति और भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता की शर्त की अनिवार्यता से छूट होगी।</p>		<p>निर्धारित की गई सैद्धांतिक अर्हता एवं अनुभव रखने वाले समतुल्य पदधारी केन्द्र सरकार के नियमित कर्मचारियों को मूल से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है। (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को प्रतिनियुक्ति आधार पर</p>		<p>प्रौद्योगिकी की महाविद्यालय, चंडीगढ़-सदस्य</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	--

	<p>(iv) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/लेक्चरशिप के लिए राज्य पात्रता परीक्षा, उन शाखाओं में मास्टर कार्यक्रमों के लिए भी अनिवार्य नहीं होगी जिनके लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तर पात्रता परीक्षा/प्राध्यापक के लिए राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है।</p> <p>टिप्पण 1: जहाँ विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा ग्रेड प्वाइंट्स में परिणाम घोषित किया जाता है, जो सात अंकों का पैमाना होता है, वहाँ प्रतिशत में समतुल्य अंकों का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित पद्धति को अपनाना आवश्यक है:</p> <p>0- उत्कृष्ट, ए-बहुत अच्छा, बी-अच्छा, सी-</p>	<p>भरे जाने वाले अंकजों की अधिकतम आयु 55 से वर्ष अधिक नहीं होगी (घाटिका)</p>
--	--	--

[illegible]

6. ज्येष्ठ पुस्तकाल-याध्यक्ष	01* (2012) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रि त	शैक्षणिक ग्रेड वेतन 6000/- के रु. साथ 15600-39100/- रु.	लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों अथवा निदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष शिथिल की जा सकेगी)	आवश्यक: (क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा इसके समतुल्य व्यावसायिक डिग्री (अथवा जहां कहीं ग्रेड प्रणाली लागू हो, वहां प्वाइंट स्केल में इसके समतुल्य ग्रेड) तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण ज्ञान के साथ संगत रूप से अच्छा शैक्षणिक अभिलेख।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा यदि पदधारी प्रतिनियुक्त या किसी भी परिस्यति की वजह से एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए रिक्त किया जाता है तो इसे कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित	लागू नहीं	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण हेतु) 1. गृह सचिव, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़-अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ - सदस्य 3. प्राचार्य, चंडीगढ़ इंजी-नियरिंग एवं प्रौद्योगिकी	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।
------------------------------	--	---	---	-----------------	--	---	-----------------	---------------------------------	--	-----------	---	---

मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश राज्य का एवं लाहौल एवं स्पीति जिलों तथा चम्बा खिले के पांगी उपमंडल एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई अंतिम तारीख नहीं।	आयोग, (पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसरण में पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गई है, उन्हें विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ कालेज पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति एवं भर्ती हेतु लेक्चरशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा की न्यूनतम पात्रता शर्त से छूट प्रदान की जाएगी। टिप्पण-1: जहाँ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा ग्रेड प्वाइंट्स में परिणाम घोषित किया जाता है, जो सात अंकों का पैमाना होता है वहाँ प्रतिशत के समतुल्य अंकों का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित पद्धति को अपनाया जाएगा:	की गई शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखने वाले समकक्ष पदधारी केन्द्र सरकार के नियमित कर्मचारियों को मूल संवर्ग/विभा ग से प्रतिनियु क्ति आधार पर भरा जा सकता है। (आवेदन प्राप्त करने अंतिम तारीख को प्रतिनियु क्ति आधार पर भरे जाने	कालेज, चंडीगढ़- सदस्य
---	---	---	-----------------------------

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION****New Delhi, the 19th December, 2012**

G.S.R. 925(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Principal, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Assistant Professor in Applied Sciences and Senior Librarian in Chandigarh College of Engineering and Technology, Chandigarh namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Chandigarh College of Engineering and Technology, Chandigarh Administration, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Assistant Professor in Applied Sciences and Senior Librarian (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and payband and grade pay or pay scale.**— The number of post, its classification and payband and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
5. **Disqualification.**—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption from grades which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Principal	1* (2012) *Subject to variation depended on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 37400-67000 with Academic Grade Pay Rs 10000/- + Special Allowance Rs. 3000/- per month.	Not Applicable.	Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).	Essential: (i) Bachelor of Engineering or Master of Technology and Master of Engineering or Master of Technology in Engineering with First Class or equivalent either in Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or Master of Engineering or Master of Technology and Ph.D or equivalent in Engineering from a recognised University or Institution and (ii) ten years experience in teaching or Research or Industry out of which at least three years shall be at the level of Professor. OR Thirteen years experience in teaching and or research and or Industry. In case of research experience, good academic	Not Applicable.	One year for direct recruits	By direct recruitment. Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent	Not Applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee, for confirmation, consisting of 1. Home Secretary, Technical Education, Chandigarh Administration - Chairman 2. Secretary, Technical Education,	Consultation with Union Public Service Commission while making direct recruitment

2. Professor	4*	(2012)	*Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 37400 67000 with Academic Grade Pay Rs 10000.	Not Applicable	Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology and Master of Engineering or Master of Technology in relevant branch of Engineering (Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Electronics and Communication Engineering or Electronics and Electrical Communications Engineering, Mechanical Engineering) with first class or equivalent either in Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or Master of Engineering or Master of Technology and Ph. D or equivalent in Engineering from a recognized university or institution. Experience: Minimum of ten years experience in Teaching or Research or Industry out of which at least five years shall be at the level of Associate Professor. OR Minimum of thirteen years experience in Research and/or Industry. In case of research experience, good academic record and books or research paper publications or Intellectual Property Right or patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection committee	Not Applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance s for duration of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department and possessing the educational qualification and experience prescribed for direct	Not Applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) 1. Home Secretary, Technical Education, Chandigarh Administration, Chandigarh - Chairman. 2. Joint Secretary, Technical Education, Chandigarh - member. 3. Principal, Chandigarh College of Engineering and Technology, Chandigarh - member.	Consultation with Union Service Commission necessary while making recruitment	
--------------	----	--------	---	--	--	----------------	---	---	----------------	-------------------------------	---	----------------	---	---	--

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3. Associate Professor	7* (2012) *Subject to variation depended on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 37400-67000 with Academic Grade Pay Rs. 9000/-	Not Applicable.	<p>Not exceeding forty five years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note : The crucial date for determining for the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh. Division of</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or Master of Engineering or Master of Technology in relevant branch (Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Electronics Communication Engineering or Electronics and Communication Engineering, Mechanical Engineering) with first class or equivalent either in Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology and Master of Engineering or Ph. D or equivalent in Engineering from a recognized University or Institution and</p> <p>(ii) Five years experience in Teaching or Research or Industry out of which at least two years Post Ph. D experience is desirable.</p> <p>Note -1. Equivalence for Ph. D is based on publication of five international Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of</p>	Not Applicable	Two years for direct recruits	<p>By direct recruitment.</p> <p>Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department and possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by</p>	Not Applicable	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation)</p> <p>1. Home Secretary, Technical Education, Chandigarh Administration, Chandigarh. Chairman</p> <p>2. Joint Secretary, Technical Education, Chandigarh-member.</p> <p>3. Principal, Chandigarh College of Engineering & Technology, Chandigarh - member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment

[illegible]

4771 GI/2012-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)																		
1 Assistant Professor	16* (2012) * Subject to variation depended on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs 15600-39100 with Academic Grade Pay Rs. 6000/-	Not Applicable	Not exceeding thirty five years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology, or Master of Engineering in relevant branch of Engineering (Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Electronics and Communication Engineering or Electronics and Electrical Communication Engineering, Mechanical Engineering) with first class or equivalent either in Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology and Master of Engineering or Master of Technology from a recognized university or institution. Note- If a Class or division is not awarded, minimum of sixty percent marks in aggregate shall be considered equivalent to first class or division. If a Grade Point System is adopted the Cumulative Grade Point Average will be converted into equivalent marks as below:- <table><tr><th>Grade</th><th>Point</th><th>Equivalent Percentage</th></tr><tr><td>6.25</td><td></td><td>55%</td></tr><tr><td>6.75</td><td></td><td>60%</td></tr><tr><td>7.25</td><td></td><td>65%</td></tr><tr><td>7.75</td><td></td><td>70%</td></tr><tr><td>8.25</td><td></td><td>75%</td></tr></table> Note-1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission	Grade	Point	Equivalent Percentage	6.25		55%	6.75		60%	7.25		65%	7.75		70%	8.25		75%	Not Applicable	Two years for direct recruits.	By direct recruitment. Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study or leave or under other circumstances for duration of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department and possessing the educational qualification and experience	Not Applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) 1. Home Secretary, Technical Education, Chandigarh Administration, Chandigarh Chairman 2. Joint Secretary, Technical Education, Chandigarh-member, 3. Principal, Chandigarh College of Engineering & Technology, Chandigarh member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.
Grade	Point	Equivalent Percentage																												
6.25		55%																												
6.75		60%																												
7.25		65%																												
7.75		70%																												
8.25		75%																												

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5 Assistant Professor in Applied Sciences	03* (2012) * Subject to variations depended on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 15600-39100 with Academic Grade Pay Rs. 6000/-	Not Applicable	Not exceeding thirty five years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: (i) Good academic record as defined by the concerned university with at least 55 percent marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level, in a relevant subject from an Indian university, or an equivalent degree from an accredited foreign university. (ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the national eligibility test (NET) conducted by the University Grants Commission, Council of Scientific and Industrial Research or similar test accredited by the University Grants Commission like State Level Eligibility Test (SLET) or Symbiosis Entrance Test (SET) (iii) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) above, candidates, who are, or have been awarded a Ph. D degree in accordance with the University Grants Commission (minimum standards and procedure for award of Ph. D degree) regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or State Eligibility Test for Lectureship for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities or Colleges or Institutions. (iv) National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or State Eligibility Test for Lectureship shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which National Eligibility Test/State Level Eligibility Test/State Eligibility Test for Lectureship is not	Not Applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment. Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study or leave or under other circumstances for duration of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department and possessing the educational qualification and experience	Not Applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) 1. Home Secretary, Technical Education, Chandigarh Administration, Chandigarh -Chairman 2. Joint Secretary, Technical Education, Chandigarh member. 3. Principal, Chandigarh College of Engineering and Technology, Chandigarh - member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment

Note :

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6. Senior Librarian	01* (2012) * Subject to variation depended on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 15600-39100 with Academic Grade Pay Rs. 6000/-	Not Applicable.	Not exceeding thirty five years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: A Master's degree in Library Science/Information Science/Documentation Science or an equivalent professional degree with at least fifty five percent marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of Library. (ii) Qualifying the National Eligibility Test conducted for the purpose by the University Grant Commission or any other agency approved by the University Grant Commission. (iii) However, candidates, who are, or have been awarded a Ph.D degree in accordance with the University Grants Commission (minimum standards and procedure for award of Ph.D degree) regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or State Eligibility Test for Lectureship for recruitment and appointment of University Assistant Librarian/College Librarian. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,	Not Applicable.	Two years for direct recruits	By direct recruitment. Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study or leave or under other circumstance \$ for duration of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department and possessing the educational qualification and experience prescribed	Not Applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) 1. Home Secretary, Technical Education, Chandigarh Administration, Chandigarh -Chairman 2. Joint Secretary, Technical Education, Chandigarh-member. 3. Principal, Chandigarh College of Engineering and Technology, Chandigarh - member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment

[illegible]